



Series

QUESTION BOOKLET

प्रश्न-पुस्तिका

Sr. No.

Roll No. (in Figures) रोल नं. (अंकों में) : _____

Roll No. (in Words) रोल नं. (शब्दों में) : _____

समय : 2 घण्टे

छंटनी परीक्षा

अधिकतम अंक : 200

Time : 2 Hours

Screening Test

Maximum Marks : 200

PLEASE READ THIS PAGE CAREFULLY.

Note : Candidate should remove the sticker seal and open this Booklet **ONLY** after announcement by centre superintendent and should thereafter check and ensure that this Booklet contains all the **24 pages** and tally with the same Code No. given at top of first page & the bottom of each & every page. If you find any defect, variation, torn or unprinted page, please have it replaced at once before you start answering.

IMPORTANT INSTRUCTIONS :

1. The Answer sheet of a candidate who does not write his Roll No., or writes an incorrect Roll No. on the title page of the Booklet and in the space provided on the Answer sheet will neither be evaluated nor his result declared.
2. The paper contains **200** questions.
3. Attempt all questions as there will be no Negative Marking.
4. The questions are of objective type. Here is an example. Question : 8 Taj Mahal was built by _____
(A) Sher Shah (B) Aurangzeb
(C) Akbar (D) Shah Jahan
The correct answer of this question is Shah Jahan. You will therefore darken the circle with ink pen below column (D) as shown below :
A B C D
Q.8 ○ ○ ○ ●
5. Each question has only one correct answer. If you give more than one answer, it will be considered wrong and it will not be evaluated. **Changing, cutting, overwriting and erasing of an answer will be treated as wrong answer.**
6. The space for rough work wherever provided may be utilized by the candidate. You are not to use any portion of the Answer Sheet for rough work.
7. Do not mutilate this booklet in any manner. Serious damage/mutilation may entail disqualification.
8. Do not leave your seat until the Answer Sheets have been collected at the close of the examination.
9. Candidate will not leave the examination room till stipulated time is over and only after he has handed over the Answer Sheet to the staff on duty.

कृपया इस पृष्ठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

नोट : प्रत्याशी केवल केन्द्र संचालक द्वारा घोषणा पर ही स्टीकर सील हटा कर इस पुस्तिका को खोलें और जाँच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि इसमें **24 पृष्ठ** हैं और सभी पृष्ठों के नीचे दिये गये कोड नम्बर पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर दिये गये कोड नम्बर से मिला लें । यदि कोई त्रुटि पायें तो उत्तर देने से पहले तुरन्त इसे बदल लें ।

महत्त्वपूर्ण निर्देश :

1. जो प्रत्याशी अपनी पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ एवं उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान पर अपना रोल नं. नहीं लिखेगा या गलत लिखेगा उसकी उत्तर पुस्तिका की न तो जाँच की जायेगी और न ही उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा ।
2. प्रश्न पुस्तिका में **200** प्रश्न हैं ।
3. सभी प्रश्न हल करें क्योंकि नकारात्मक अंकन नहीं होगा ।
4. प्रश्न उद्देश्य पूरक है । उदाहरण के तौर पर
प्रश्न : 8 ताज महल का निर्माण _____ ने करवाया था ।
(A) शेरशाह (B) औरंगजेब
(C) अकबर (D) शाहजहाँ
इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहाँ । इसलिये आप उत्तर पुस्तिका के कॉलम (D) के नीचे प्रश्न 8 के सामने दिये गये खाली वृत्त को स्याही वाले पेन से पूरा भर देंगे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है ।
A B C D
Q.8 ○ ○ ○ ●
5. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है । यदि आप एक से अधिक उत्तर देंगे, तो यह गलत समझा जायेगा और उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।
(बदलने, काटने, दोबारा लिखने या मिटाने से उत्तर को गलत समझा जायेगा)
6. जहाँ कहीं भी जगह दी गई हो उसे ही रफ कार्य के लिये प्रयोग करें । आपको उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग को रफ कार्य के लिये उपयोग नहीं करना है ।
7. किसी भी तरह से पुस्तिका को खराब न करें । गम्भीर रूप से नष्ट/ खराब पुस्तिका के कारण आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
8. अपने स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक उत्तर-पुस्तिका को परीक्षा समाप्त होने पर इकट्ठा नहीं कर लिया जाता ।
9. प्रत्याशी तब तक परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेगा या बाहर नहीं जायेगा जब तक कि परीक्षा समय समाप्त नहीं हो जाता और वह अपनी उत्तर-पुस्तिका परीक्षा में तैनात स्टॉफ को नहीं दे देता ।



Code No. : **C-418** /2017/Series-A

Space For Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

QUESTION BOOKLET

This question paper contains **200** questions. /इस प्रश्न-पत्र में **200** प्रश्न हैं ।

All questions are compulsory. /सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।

One question carries **one** mark only. /एक प्रश्न के लिए केवल एक अंक है ।

Total Marks : **200**

अधिकतम अंक : **200**

Time : **2Hours**

समय : **2घण्टे**

1. घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के अन्तर्गत न्यायालय में पीड़िता की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है ?
(A) जिला कार्यक्रम अधिकारी (B) बाल विकास परियोजना अधिकारी
(C) पर्यवेक्षक (ICDS) (D) पुलिस
2. 2 अक्तूबर, 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवाएँ पूरे देश के कितने सामुदायिक विकास खण्डों में शुरू की गई थीं ?
(A) 30 (B) 33 (C) 36 (D) 39
3. आँगनवाड़ी स्तरीय निगरानी एवं सहयोग समिति (ALMSC) का अध्यक्ष कौन होता है ?
(A) प्रधान ग्राम पंचायत (B) उप-प्रधान ग्राम पंचायत
(C) वार्ड पंच (D) पर्यवेक्षक
4. बालिका दिवस कब मनाया जाता है ?
(A) 3 जनवरी (B) 6 जनवरी (C) 14 जनवरी (D) 24 जनवरी
5. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषाहार समिति का अध्यक्ष कौन होता है ?
(A) प्रधान ग्राम पंचायत (B) उप-प्रधान ग्राम पंचायत
(C) वार्ड पंच (D) स्वास्थ्य कार्यकर्ता
6. माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत एस.सी. व एस.टी. की बी.पी.एल. परिवार की एक पात्र महिला को गैस कनेक्शन और चूल्हा खरीदने के लिए अधिकतम कितनी अनुदान राशि दी जाती है ?
(A) ₹ 1300 (B) ₹ 1500 (C) ₹ 1700 (D) ₹ 2000
7. समय से पूर्व जन्मा शिशु (Premature baby) किसे कहा जाता है ?
(A) 259 दिनों से पहले पैदा होने वाला बच्चा
(B) 280 दिनों से पहले पैदा होने वाला बच्चा
(C) 280 दिनों के बाद पैदा होने वाला बच्चा
(D) उक्त कोई भी नहीं
8. जन्म के समय किस नवजात शिशु को कम वजन वाला (under weight) माना जाता है ?
(A) 2.5 किलोग्राम से कम (B) 3 किलोग्राम से कम
(C) 3.5 किलोग्राम से कम (D) उक्त कोई भी नहीं

9. आयोडीन की कमी से कौन-कौन से विकार हो सकते हैं ?
 (A) गर्भवती महिला का समय से पहले गर्भपात
 (B) मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो सकता है ।
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उक्त में से कोई नहीं
10. एक गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ कब लेना शुरू करनी चाहिए ?
 (A) गर्भधारण के तुरन्त बाद (B) गर्भधारण के एक माह बाद
 (C) गर्भधारण के दो माह बाद (D) गर्भधारण के तीन माह बाद
11. आँगनवाड़ी केन्द्र में किस तिथि को हर वर्ष सर्वेक्षण आधार तिथि माना जाता है ?
 (A) 1 जनवरी (B) 1 फरवरी (C) 1 मार्च (D) 1 अप्रैल
12. परिवार विवरण पंजी-1 में आँगनवाड़ी केन्द्रों के सर्वे के अन्तर्गत एक परिवार की संख्या कितने अंकों में दी जाती है ?
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
13. एक गर्भवती महिला को टी.टी. का पहला टीका कब लगाया जाता है ?
 (A) जब भी महिला के गर्भवती होने का पता चलता है ।
 (B) गर्भधारण के एक माह बाद
 (C) गर्भधारण के दो माह बाद
 (D) गर्भधारण के तीन माह बाद
14. पूरक पोषाहार के अन्तर्गत निम्न में से किसको पोषाहार वितरित नहीं किया जाता है ?
 (A) 0-6 माह के बच्चे (B) 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे
 (C) गर्भवती महिलाएँ (D) धात्री महिलाएँ
15. WHO वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार जन्म से एक माह के शिशु का वजन कितनी बार लिया जाता है ?
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
16. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत नारी सेवा सदन में रहने वाली महिला की शादी परकितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है ?
 (A) 5000 (B) 25000 (C) 50000 (D) 51000

17. महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बनाए गए स्वयं सहायता समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए ?
 (A) 7 (B) 15 (C) 20 (D) इनमें से कोई नहीं
18. नए WHO वृद्धि निगरानी चार्ट में लड़कों के चार्ट का क्या रंग होता है ?
 (A) नीला (B) गुलाबी (C) हरा (D) सफेद
19. आयोडीन कौन से खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है ?
 (A) चीनी (B) आटा (C) नमक (D) मसाला
20. लौह तत्व को पचाने हेतु कौन सा विटामिन कार्य करता है ?
 (A) विटामिन ए (B) विटामिन बी (C) विटामिन सी (D) विटामिन डी
21. एक नवजात शिशु को जन्म के बाद कितने दिनों तक नहीं नहलाना चाहिए ?
 (A) 3 (B) 7 (C) 11 (D) 15
22. घर पर ही होने वाले प्रसव हेतु कौन से 5 सफाइयों (five cleans) का ध्यान रखना जरूरी है ?
 (A) साफ हाथ और साफ कमरा (B) साफ ब्लेड और नाभि
 (C) साफ धागा और साफ कपड़े (D) उक्त सभी
23. एक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए ?
 (A) 8 से 10 किलो (B) 10 से 12 किलो (C) 12 से 14 किलो (D) 11 से 13 किलो
24. स्वास्थ्य कार्यकर्ता जन्म के बाद एक नवजात शिशु को किस खतरे के निशान वाला बच्चा मानेंगे ?
 (A) जो शिशु न रोए, न साँस ले। (B) जिसके हाथ पाँव पीले हों।
 (C) जो शिशु सुस्त या बेहोशी में हो। (D) इनमें से सभी
25. बाल/बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत किस आयु वर्ग तक के बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है ?
 (A) 0 से 10 वर्ष की आयु तक (B) 5 से 10 वर्ष की आयु तक
 (C) 0 से 18 वर्ष की आयु तक (D) 0 से 16 वर्ष की आयु तक
26. सबला योजना के अन्तर्गत किस आयु वर्ग की किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है ?
 (A) 10 से 18 वर्ष की आयु तक (B) 9 से 19 वर्ष की आयु तक
 (C) 11 से 18 वर्ष की आयु तक (D) इनमें से कोई भी नहीं

27. हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबला योजना लागू नहीं की गई है ?
 (A) चम्बा (B) काँगड़ा (C) कुल्लू (D) मण्डी
28. माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किस वर्ग के परिवारों की महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है ?
 (A) अनुसूचित जाति (B) अनुसूचित जनजाति
 (C) अन्य पिछड़ा वर्ग (D) (A) और (B)दोनों
29. आँगनवाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति हेतु एक 10वीं पढ़ी सहायिका के लिये कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए ?
 (A) 5 वर्ष (B) 8 वर्ष (C) 9 वर्ष (D) 10 वर्ष
30. बी.एम.आई. (Body Mass Index) को मापने का सूत्र क्या है ?
 (A) कुल वजन (कि.ग्रा.) / लम्बाई (मीटर)
 (B) कुल वजन (कि.ग्रा.) / लम्बाई × लम्बाई
 (C) कुल वजन (कि.ग्रा.) / लम्बाई(मीटर) × लम्बाई (मीटर)
 (D) इनमें से कोई नहीं
31. आँगनवाड़ी सहायिका के कौन से मुख्य कार्य हैं ?
 (A) बच्चों को आँगनवाड़ी केन्द्र में इकट्ठा करना ।
 (B) पोषाहार बनाकर बच्चों और महिलाओं को परोसना ।
 (C) बच्चों और आँगनवाड़ी केन्द्र की सफाई करना ।
 (D) उपरोक्त सभी
32. संदर्भ सेवाएँ किसे नहीं दी जाएँगी ?
 (A) स्वस्थ बच्चा (B) अति कुपोषित बच्चा
 (C) कम वजन वाला बच्चा (D) संक्रमण रोगों से पीड़ित बच्चा
33. सामुदायिक सहभागिता निम्न में किसे कहा जा सकता है ?
 (A) माँ के द्वारा बच्चे को आँगनवाड़ी केन्द्र में पहुँचाना ओर ले जाना ।
 (B) केन्द्र से पोषाहार न ले जाना ।
 (C) आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से गपशप करना ।
 (D) इनमें से कोई भी नहीं
34. 108 द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन-कौन सी आपातकालीन सेवाएँ हैं ?
 (A) चिकित्सीय आपातकाल (B) आपातकालीन पुलिस सेवा
 (C) आपातकालीन अग्निशमन सेवा (D) उक्त तीनों

35. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी ?
 (A) 2001 (B) 2005 (C) 2008 (D) 2010
36. कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के बारे में किसके पास शिकायत की जा सकती है ?
 (A) अध्यक्ष, विभागीय यौन उत्पीड़न निरोधक समिति
 (B) अध्यक्ष, जिला स्तरीय यौन उत्पीड़न निरोधक समिति
 (C) (A) और (B) में किसी के भी पास
 (D) (A) और (B) दोनों के पास नहीं
37. साइलेंट स्क्रीम्स डॉक्यूमेंटरी(Silent Screams Documentary) किस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखाई दी जाती है ?
 (A) बेटी है, अनमोल योजना (B) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
 (C) मुस्कान कार्यक्रम (D) इनमें से कोई भी नहीं
38. सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत अधिकतम किस आयु तक की कन्या के द्वारा खाता खोला जा सकता है ?
 (A) 5 वर्ष तक (B) 7 वर्ष तक (C) 9 वर्ष तक (D) 10 वर्ष तक
39. अजन्मे लड़का/लड़की का लिंग निर्धारण करना किस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है ?
 (A) पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. (PC&PNDT) अधिनियम
 (B) घरेलू हिंसा अधिनियम
 (C) पोक्सो अधिनियम
 (D) उक्त कोई भी नहीं
40. महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के द्वारा संचालित चाईल्ड लाइन सेवा (24×7)के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा के लिये कौन सा नम्बर डायल किया जाता है ?
 (A) 100 (B) 102 (C) 1052 (D) 1098
41. आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं ?
 (A) 0 से 3 वर्ष (B) 0 से 5 वर्ष (C) 0 से 6 वर्ष (D) 0 से 9 वर्ष
42. किशोरी दिवस किस योजना के अन्तर्गत मनाए जाते हैं ?
 (A) बालिका समृद्धि योजना (B) सुकन्या समृद्धि योजना
 (C) सबला योजना (D) इनमें से कोई भी नहीं

43. घरेलू हिंसा से पीडित महिला को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्न में से संरक्षण के कौन से प्रावधान हैं ?
 (A) कानूनी सहायता (B) परामर्श
 (C) संरक्षण और चिकित्सीय सहायता (D) उक्त सभी
44. दहेज प्रथा एक कुरीति है, इसकी रोकथाम के लिये कौन सा कानून बनाया गया है ?
 (A) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2002 (B) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
 (C) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (D) इनमें से कोई भी नहीं
45. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत (आर.टी.ई. एक्ट, 2009) किस आयु के बच्चों को मुफ्त जरूरी शिक्षा का प्रावधान है ?
 (A) 0 से 6 वर्ष (B) 6 से 10 वर्ष (C) 6 से 14 वर्ष (D) 6 से 18 वर्ष
46. पीलिया रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं ?
 (A) भूख कम लगना – बुखार आना । (B) सिर दर्द व जी-मचलना
 (C) आँख, जीभ, त्वचा, पेशाब पीला होना (D) उपरोक्त सभी
47. हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है ?
 (A) जैनव चन्देल (B) राजकुमारी सोनी (C) पूजा शर्मा (D) बन्दना चौहान
48. बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया किस खनिज पदार्थ की कमी से पाया जाता है ?
 (A) लवण (B) विटामिन (C) लौह तत्व (D) उक्त कोई भी नहीं
49. ग्रामीण क्षेत्र में नए आँगनवाड़ी केन्द्र खोलने हेतु कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ?
 (A) 150 (B) 300 (C) 450 (D) 600
50. जनसंख्या गणना-2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का लिंग अनुपात क्या है ?
 (A) 976 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष (B) 972 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष
 (C) 1095 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष (D) 819 महिलाएँ प्रति हजार पुरुष
51. एक बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक कितने माह की आयु में दी जानी चाहिए ?
 (A) 3 माह (B) 5 माह (C) 7 माह (D) 9 माह
52. निम्न में से कौन सी सेवा/योजना निदेशालय, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित नहीं की जा रही है ?
 (A) समेकित बाल विकास सेवाएँ (B) एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएँ
 (C) वृद्धावस्था पेन्शन (D) सबला

53. कृमिनाशक दवाई किस आयु के बच्चे को नहीं दी जाती है ?
 (A) 1 वर्ष से कम (B) 2 वर्ष से कम (C) 3 वर्ष से कम (D) 5 वर्ष से कम
54. माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है ?
 (A) स्पेक्टरम (B) लैक्टोजन (C) कोलोस्टरम (D) उक्त सभी
55. एल.एच.वी. से क्या अभिप्राय है ?
 (A) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (B) पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
 (C) बहु-उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता (D) स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका
56. हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन से समुदाय के लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं आते हैं ?
 (A) हिन्दू (B) मुस्लिम (C) सिख (D) ईसाई
57. टीकाकरण के अन्तर्गत नवजात शिशु को कौन सी जीरो खुराक और टीका दिया जाता है ?
 (A) हैपेटाइटिस बी.और डी.पी.टी. (B) ओ.पी.वी. और हैपेटाइटिस बी.
 (C) खसरा (D) विटामिन ए
58. हैपेटाइटिस बी. का विषाणु शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है ?
 (A) यकृत (B) किडनी (C) हृदय (D) फेफड़ा
59. हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों को किस विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है ?
 (A) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (B) कल्याण विभाग
 (C) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (D) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
60. अन्तर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस (Global Handwash Day) कब मनाया जाता है ?
 (A) 15 अप्रैल (B) 15 मई (C) 15 अगस्त (D) 15 अक्तूबर
61. जीवन कौशल शिक्षा, राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम के अन्तर्गत किस आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ?
 (A) 12 से 14 वर्ष (B) 14 से 16 वर्ष (C) 16 से 18 वर्ष (D) उक्त कोई भी नहीं
62. ओ.आर.एस. का घोल घर में ही तैयार करने हेतु कौन सा घटक प्रयोग नहीं किया जाता है ?
 (A) पानी (B) नमक (C) चीनी (D) सिरका
63. विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ?
 (A) रतौंधी (B) घेंघा (C) स्कर्वी (D) इनमें से कोई नहीं

64. इनमें से कौन सी दवाई कृमिनाशक है ?
 (A) एलवैंडाजोल (B) पैरासिटामोल (C) डिस्पिरिन (D) एनासिन
65. “पहला प्रयास” से क्या अभिप्राय है ?
 (A) सबला योजना का घटक
 (B) किशोरी शक्ति योजना का घटक
 (C) प्रारम्भिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा पाठ्यक्रम
 (D) उक्त में से कोई भी नहीं
66. पंजी नं. 11 किससे सम्बन्धित है ?
 (A) संदर्भ सेवाएँ (B) गृह भेंट योजना
 (C) टीकाकरण (D) बच्चों का वजन और रिकॉर्ड
67. नाको (NACO)संस्था किससे सम्बन्धित है ?
 (A) स्वाइन फ्लू (B) एड्स (C) टीबी (D) पोलियो
68. भारत में समेकित बाल विकास योजना किस महान विभूति के जन्म दिवस पर शुरू की गई ?
 (A) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (B) पं. जवाहरलाल नेहरू
 (C) सरदार वल्लभभाई पटेल (D) मोहनदास करमचंद गांधी
69. किस अवस्था में यौन अंगों और रुचियों में बदलाव आता है और भावनाएँ अत्यन्त तीव्र हो जाती हैं ?
 (A) बाल्यावस्था में (B) किशोरावस्था में (C) युवा अवस्था में (D) उक्त किसी में नहीं
70. यदि माहवारी के दौरान किसी किशोरी को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो क्या करना चाहिए ?
 (A) गर्म पानी की बोतल से सेक देने चाहिए ।
 (B) डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए ।
 (C) ठण्डा पानी पीना चाहिए ।
 (D) (A) और (B)दोनों
71. एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या हैं ?
 (A) चक्कर आना
 (B) सुस्ती व थकावट रहना
 (C) माहवारी का अनियमित होना या अधिक खून बहना
 (D) उक्त तीनों

72. आँगनवाड़ी/स्वास्थ्य केन्द्र से महिलाओं और किशोरियों को दी गई आयरन की गोली कैसे लेनी/खानी चाहिए ?
 (A) रात सोने से पहले सादा पानी व नींबू पानी से
 (B) गर्म पानी के साथ
 (C) दूध के साथ
 (D) चाय के साथ
73. खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिये कम से कम कितना समय लेना चाहिए ?
 (A) 20सेकण्ड (B) 30सेकण्ड (C) 45सेकण्ड (D) एक मिनट
74. हाथ धोने के लिये कितने चरण (Steps) होते हैं ?
 (A) 4 चरण (B) 5 चरण (C) 6 चरण (D) 7 चरण
75. भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की केन्द्रीय मंत्री कौन है ?
 (A) स्मृति ईरानी (B) सुषमा स्वराज (C) उमा भारती (D) मेनका गांधी
76. आँखों की देखभाल से सम्बन्धित कौन सा वाक्य सही नहीं है ?
 (A) आँखों को स्वच्छ जल से साफ करना चाहिए ।
 (B) बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ना चाहिए ।
 (C) गंदे हाथ व गंदे रूमाल नहीं लगाने चाहिए ।
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
77. UNICEF (यूनिसेफ) संस्थाका मुख्य उद्देश्य है
 (A) माता व शिशुओं का कल्याण करना ।
 (B) वृद्धों की देखभाल करना ।
 (C) किशोरों की देखभाल करना ।
 (D) इनमें से कोई नहीं
78. भोजन की मार्गदर्शिता (कैलोरी) निम्नलिखित के आधार पर की जाती है :
 (A) व्यक्ति के आयु व श्रम के आधार पर ।
 (B) व्यक्तियों की रुचियों के आधार पर ।
 (C) सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ।
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
79. निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है ?
 (A) घेंघा (B) टिटनेस
 (C) एनीमिया (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

80. शालापूर्वक शिक्षा में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है ?
 (A) 1-3 वर्ष (B) 2-4 वर्ष (C) 3-5 वर्ष (D) 3-6 वर्ष
81. गरीबी रेखा में शामिल परिवार को “बेटी है अनमोल योजना” में कितनी बेटियों को लाभ दिया जाता है ?
 (A) एक बेटी पर (B) सभी बेटियों पर (C) दो बेटियों पर (D) इनमें से कोई नहीं
82. अधिनियम के अन्तर्गत बेटी की शादी की आयु कितनी होनी चाहिए ?
 (A) 16 से ऊपर (B) 18 से ऊपर (C) 20 से ऊपर (D) 21 से ऊपर
83. 1929 बाल-विवाह रोकथाम अधिनियम कब संशोधित हुआ ?
 (A) 1952 (B) 1975 (C) 1979 (D) 1980
84. बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना का आरम्भ किस वर्ष हुआ ?
 (A) 2005 (B) 2009 (C) 2011 (D) 2015
85. बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत कितनी आयु निर्धारित की गई है ?
 (A) 18 (B) 14 (C) 19 (D) 20
86. अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ द्वारा नाबालिक लड़की की कितनी आयु निर्धारित की गई है ?
 (A) 11 से 18 (B) 9 से 16
 (C) 10 से 19 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
87. भावनात्मक एवं शारीरिक सहायता की कमी से बच्चे के विकास में कौन सा पहलू अधूरा रहेगा ?
 (A) शारीरिक विकास (B) सांस्कृतिक विकास
 (C) व्यक्तित्व विकास (D) उपरोक्त सभी
88. भारत में परिवार नियोजन कब आरम्भ हुआ ?
 (A) 1952 (B) 1964 (C) 1957 (D) 1960
89. हिमाचल में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई ?
 (A) 1910 (B) 1912 (C) 1913 (D) 1914
90. हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ ?
 (A) 27 अप्रैल, 1954 (B) 2 अक्टूबर, 1971
 (C) 5 अप्रैल, 1962 (D) 26 नवम्बर, 1971

91. सबला योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है ?
 (A) किशोरी शक्ति योजना (B) इन्दिरा महिला योजना
 (C) महात्मा गाँधी किशोरी शक्ति योजना (D) राजीव गाँधी किशोरी शक्ति योजना
92. परित्यक्त या तलाकशुदा महिला जिसकी आय 35 हजार से कम है, को बेटी की शादी के लिये कौन सी योजना में लाभ मिलेगा ?
 (A) बेटी है अनमोल (B) किशोरी शक्ति योजना
 (C) इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
93. नारी सेवा सदन में रहकर सदन छोड़ने पर पुनर्वास सहायता तथा विवाह अनुदान क्रमशः होगा
 (A) 10,000 तथा 15,000 (B) 20,000 तथा 25,000
 (C) 40,000 तथा 50,000 (D) 20,000 तथा 35,000
94. ओ.आर.एस. घोल किस बीमारी के प्राथमिक उपचार के रूप में दिया जाता है ?
 (A) रक्तता (B) काली खाँसी (C) अतिसार (D) बुखार
95. बलात्कार पीड़ितों को एफ.आई.आर. की कोपी कितने दिन में दी जानी चाहिए ?
 (A) 24 घंटे (B) 36 घंटे (C) 48 घंटे (D) 72 घंटे
96. मुख्यमंत्री बाल-उद्धार योजना का उद्देश्य क्या है ?
 (A) बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता
 (B) बच्चों को बीमारियों से बचाना
 (C) बेसहारा, अनाथ बच्चों की देखरेख व संरक्षण
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
97. बाल-बालिका सुरक्षा योजना में दम्पति की कुल आयु कितनी होनी चाहिए ?
 (A) 85 वर्ष लगभग (B) 80 वर्ष लगभग (C) 100 वर्ष लगभग (D) 105 वर्ष लगभग
98. बी.पी.एल. परिवार की दो बेटियों को किस योजना में 10 हजार एफ.डी. के रूप में सहायता राशि मिलती है ?
 (A) किशोरी शक्ति योजना (B) माता शबरी योजना
 (C) मदर टेरेसा योजना (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
99. आई.सी.डी.एस. योजना में अति अल्प वजन के बच्चों को प्रतिदिन कितने रुपये का पूरक पोषाहार दिया जाता है ?
 (A) ₹ 10 (B) ₹ 8 (C) ₹ 9 (D) ₹ 11

100. ग्लूकोमा _____ से सम्बन्धित है ।
 (A) आँख (B) आमाशय (C) यकृत (D) पित्ताशय
101. पालक किस विटामिन का स्रोत है ?
 (A) विटामिन ए (B) कैल्सियम (C) थाइमिन (D) लौह तत्व
102. पोक्सो अधिनियम किससे सम्बन्धित है ?
 (A) मानवाधिकार (B) बच्चों के लैंगिक शोषण
 (C) महिला शोषण (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
103. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है ?
 (A) स्वास्थ्य मंत्रालय (B) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
 (C) मानव संसाधन मंत्रालय (D) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
104. फल और सब्जियाँ किसके प्रचुर स्रोत हैं ?
 (A) ऊर्जा और प्रोटीन (B) प्रोटीन और वसा
 (C) विटामिन और खनिज (D) ऊर्जा एवं वसा
105. महिला एवं बाल विकास निदेशालय हि.प्र. में किस वर्ष अस्तित्व में आया ?
 (A) 2009 (B) 2011 (C) 2014 (D) 2005
106. स्वयं सिद्ध योजना निम्नलिखित में किससे सम्बन्धित थी ?
 (A) गाँव उत्थान (B) महिला सशक्तिकरण
 (C) मानव विकास (D) कोई नहीं
107. शिशुओं को हेपेटाइटिस का चौथा टीका कब लगाया जाता है ?
 (A) 10 सप्ताह में (B) 2 सप्ताह में (C) 14 सप्ताह में (D) 18 सप्ताहमें
108. यौन शोषण से तात्पर्य है
 (A) जबरन यौन सम्पर्क (B) यौन टिप्पणी
 (C) अविधित शारीरिक सम्पर्क (D) उपरोक्त सभी
109. आई.सी.डी.एस. के लाभार्थी नहीं हैं
 (A) 0 से 6 वर्ष के बच्चे (B) गर्भवती एवं धात्री माताएँ
 (C) किशोरियाँ (D) वरिष्ठ महिलाएँ

110. किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर की आयु निर्धारित की गई है
 (A) 11 से 15 (B) 11 से 18 (C) 9 से 18 (D) 10 से 16
111. विकास के चरण में तीन मास का बच्चा इनमें से क्या नहीं करता है ?
 (A) मुस्कराना शुरू (B) रंगों की तरफ सिर घुमाना
 (C) लेटने की मुद्रा में बैठना (D) हाथ पाँव चलाना
112. मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है ?
 (A) दस्त (B) दमा (C) फाइलेरिया (D) मलेरिया
113. पेट के कीड़ों के लिए केन्द्र में दी जाने वाली किट में दवाई पाई जाती है
 (A) सल्फा दवाई (B) पेरासिटामोल (C) मोबन्डा जोल (D) आयोडीन
114. पानी पर आधारित कौन सी बीमारी है ?
 (A) हैज़ा (B) सिफलिस
 (C) सूजन (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
115. निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है ?
 (A) दिल (B) फेफड़े (C) किडनी (D) शरीर
116. प्रभावी संप्रेषण में क्या बाधा नहीं है ?
 (A) खराब नियोजना (B) परामर्श
 (C) अप्राप्त जानकारी (D) खराब संप्रेषण कुशलताएँ
117. समूह क्या है ?
 (A) रेलवे स्टेशन पर खड़े लोग (B) कार्यालय में समस्त कामगार
 (C) एक विचार, एक मंच पर एकत्रित लोग (D) कोई नहीं
118. ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति का इनमें से कौन सदस्य सचिव है ?
 (A) सी.डी.पी.ओ. (B) डी.पी.ओ. (C) पंचायत प्रधान (D) वृत पर्यवेक्षक
119. बाल बालिका सुरक्षा योजना में कुल राशि कितनी दी जाती है ?
 (A) ₹500 (B) ₹1800 (C) ₹1600 (D) ₹2300
120. गाजर और नींबू में क्रमशः क्या पाया जाता है ?
 (A) विटामिन ए और सी (B) सी और बी
 (C) ए और डी (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

121. रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी का क्रमशः में से कौन से विटामिन सही हैं ?
 (A) विटामिन ए, डी, सी (B) विटामिन डी, ए, सी
 (C) विटामिन सी, डी, ए (D) विटामिन डी, सी, ए
122. एक वर्ष से कम बच्चे की मृत्यु दर को क्या कहते हैं ?
 (A) सी.एम.आर. (B) बी.एम.आर. (C) बी.एम.आई. (D) आई.एम.आर.
123. कार्यकर्ता के कुशल नेतृत्व में क्या असामान्य है ?
 (A) निर्णय लेना (B) समन्वय (C) कारगर संप्रेषण (D) स्वयं निर्णय
124. इनमें से कौन सा भाषा प्रवीणता में नहीं आता ?
 (A) सुनना (B) बोलना (C) लिखना-पढ़ना (D) घूमना
125. एक बच्चे की बाल्यावस्था कब तक मानी गई है ?
 (A) 1 वर्ष से 6 वर्ष तक (B) 5 वर्ष से 10 वर्ष तक
 (C) 8 वर्ष से 12 वर्ष तक (D) 2 वर्ष से 12 वर्ष तक
126. कार्यकर्ता साक्षात्कार के नियमावली में सभी रिकॉर्ड के रख-रखाव के लिए किसे अधिकृत किया गया है ?
 (A) एस.डी.एम. (B) वृत्तपर्यवेक्षक
 (C) सी.डी.पी.ओ. (D) तहसील कल्याण अधिकारी
127. उदीशा परियोजना किससे सम्बन्धित थी ?
 (A) प्रशिक्षण (B) बाल्यावस्था प्रशिक्षण
 (C) पुनश्चर्या कार्यक्रम (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
128. बच्चे के स्वास्थ्य कोष में क्या जरूरी है ?
 (A) शारीरिक स्वास्थ्य (B) भावनात्मक
 (C) सामाजिक (D) उपरोक्त सभी
129. राष्ट्रीय बाल नीति में 3 आर. की क्या परिभाषा है ?
 (A) लिखना, पढ़ना, गणित (B) अंग्रेजी, विज्ञान, सीखना
 (C) गणित, खेलना कूदना, सामाजिक (D) कोई नहीं
130. बालिका समृद्धि योजना कब लागू हुई थी ?
 (A) 2 अक्टूबर, 1995 (B) 14 नवम्बर, 2001
 (C) 2 अक्टूबर, 1997 (D) 15 अगस्त, 1997

131. राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई ?
 (A) 8 मार्च, 1993 (B) 26 जनवरी, 1993
 (C) 30 मार्च, 1993 (D) 2 अक्टूबर, 1995
132. जन्म और मृत्यु पंजीकरण मुख्य राज्य स्तरीय अधिकारी कौन है ?
 (A) निदेशक WCD
 (B) मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 (C) मुख्य रजिस्ट्रार, निदेशक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
133. बाल अपचारी सुधार गृह हिमाचल में किस जिले में है ?
 (A) काँगड़ा (B) शिमला (C) ऊना (D) हमीरपुर
134. हिमाचल विशेष दत्तक ग्रहण संस्था इनमें से कौन सी है ?
 (A) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद (B) हिमाचल प्रदेश सामाजिक कल्याण बोर्ड
 (C) महिला एवं बाल विकास विभाग (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
135. समेकित बाल संरक्षण स्कीम किस अधिनियम को पुख्ता करती है ?
 (A) किशोर न्याय अधिनियम (B) बालिका संरक्षण
 (C) बाल विवाह (D) बाल मजदूरी
136. बच्चों का जिला स्तरीय संरक्षण अधिकारी कौन होता है ?
 (A) डी.पी.ओ. (B) डी.सी.पी.ओ. (C) सी.डी.पी.ओ. (D) डी.पी.डी.ओ.
137. टी.एच.आर. से क्या अभिप्राय है ?
 (A) केन्द्र में भोजन पका कर खिलाना (B) सूखा केन्द्र बाँटना
 (C) घर के लिए कच्चा राशन बाँटना (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
138. बाल बालिका आश्रम में अनाथ बच्चों के प्रवेश हेतु क्या आयु निर्धारित की गई है ?
 (A) 6 वर्ष से अधिक (B) 2 वर्ष से अधिक
 (C) 11 से 18 वर्ष तक (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
139. अधिनियम अन्तर्गत “देखभाल और सुरक्षा” वाले बच्चों के लिए कौन सी समिति गठित की गई है ?
 (A) डी.सी.पी.यू. (B) पुलिस स्टेशन
 (C) किशोर न्याय बोर्ड (D) सी.डब्ल्यू.सी.

140. शिशु की प्रारम्भिक देखभाल हेतु क्या देना आवश्यक है ?
 (A) बोतल दूध (B) मिश्रित दूध (C) गाढ़ा दूध (D) माँ का दूध
141. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ?
 (A) विवेकानन्द (B) दयानन्द सरस्वती
 (C) राजा राममोहन राय (D) उपरोक्त कोई नहीं
142. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स (व्यपगत का सिद्धान्त) किसने शुरू की ?
 (A) लॉर्ड डलहौजी (B) लॉर्ड मिण्टो (C) लॉर्ड कार्नवालिस (D) लॉर्ड हेस्टिंग्स
143. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ?
 (A) 1875 (B) 1885 (C) 1905 (D) 1920
144. पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की ?
 (A) 1929, लाहौर (B) 1924, बेलगाँव
 (C) 1933, कलकता (D) 1937, फैजपुर
145. “स्वराज हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है” किसने कहा था ?
 (A) गोपाल कृष्ण गोखले (B) बाल गंगाधर तिलक
 (C) महात्मा गांधी (D) सुभाषचन्द्र बोस
146. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की ?
 (A) मोतीलाल नेहरू (B) लाला लाजपत राय
 (C) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस (D) भगत सिंह
147. कथकली नृत्य किस राज्य से सम्बन्धित है ?
 (A) केरल (B) तमिलनाडु (C) आन्ध्र प्रदेश (D) मणिपुर
148. पं. रविशंकर किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से सम्बन्धित हैं ?
 (A) सरोद (B) तबला (C) वीणा (D) सितार
149. भारत का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर कहाँ है ?
 (A) कोणार्क (B) उज्जैन (C) वाराणसी (D) रामेश्वरम्
150. “करो या मरो” नारा किसने दिया ?
 (A) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (B) भगतसिंह
 (C) चन्द्रशेखर आजाद (D) महात्मा गांधी

151. सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ?
 (A) शनि (B) बृहस्पति (C) पृथ्वी (D) शुक्र
152. पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है ?
 (A) 4.6 अरब वर्ष (B) 4.6 खरब वर्ष (C) 4.6 लाख वर्ष (D) 4.6 करोड़ वर्ष
153. 'माउण्ट एवरेस्ट' किस पर्वत श्रेणी से सम्बन्धित है ?
 (A) रॉकी (B) एण्डीज (C) काराकोरम (D) हिमालय
154. वायुमण्डल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है ?
 (A) ऑक्सीजन (B) कार्बन डाइऑक्साइड
 (C) ऑर्गन (D) नाइट्रोजन
155. विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ?
 (A) हिन्द (B) अटलाण्टिक (C) प्रशान्त (D) आर्कटिक
156. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ?
 (A) पाँचवाँ (B) सातवाँ (C) दसवाँ (D) दूसरा
157. भारत की प्रसिद्ध डल झील कहाँ है ?
 (A) जम्मू एवं कश्मीर (B) उत्तराखंड
 (C) अरुणाचल प्रदेश (D) तमिलनाडु
158. कपास फसल आमतौर पर किस मृदा में होती है ?
 (A) लाल मृदा (B) काली मृदा (C) जलोढ़ मृदा (D) लैटेराइट मृदा
159. थिन बाँध किस राज्य में है ?
 (A) हिमाचल प्रदेश (B) अरुणाचल प्रदेश (C) उत्तर प्रदेश (D) पंजाब
160. 'नीली क्रान्ति' किससे सम्बन्धित है ?
 (A) मत्स्य उत्पादन (B) खाद्यान्न उत्पादन (C) उर्वरक उत्पादन (D) अण्डा उत्पादन
161. 'राष्ट्रीय राजमार्ग-7' कहाँ से कहाँ तक है ?
 (A) दिल्ली-कोलकाता (B) कोलकाता-मुम्बई
 (C) कोलकाता-चेन्नई (D) वाराणसी-कन्याकुमारी

162. सबसे बड़ा व व्यस्त बन्दरगाह कौन सा है ?
 (A) काण्डला (B) मंगलौर (C) कोचीन (D) मुम्बई
163. 'दक्षिण का कश्मीर' किसे कहते हैं ?
 (A) तमिलनाडु (B) केरल (C) गोवा (D) आन्ध्र प्रदेश
164. 'संविधान की कुंजी' किसे कहा जाता है ?
 (A) मौलिक अधिकारों को (B) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को
 (C) संविधान की प्रस्तावना को (D) मौलिक दायित्वों को
165. वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं ?
 (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15
166. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया ?
 (A) अनुच्छेद 17 (B) अनुच्छेद 21 (C) अनुच्छेद 370 (D) अनुच्छेद 32
167. वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है ?
 (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 15
168. भारत में वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत) की वजह से कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया है ?
 (A) एक बार (B) दो बार (C) तीन बार (D) कभी नहीं
169. नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं ?
 (A) राष्ट्रपति (B) उपराष्ट्रपति (C) प्रधानमंत्री (D) लोकसभा अध्यक्ष
170. राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्य के रूप में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ?
 (A) 2 (B) 10 (C) 12 (D) 5
171. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया ?
 (A) 2000 (B) 2003 (C) 2009 (D) 2005
172. मिड डे मील योजना कब आरम्भ हुई ?
 (A) 1995 (B) 1998 (C) 2000 (D) 2005

173. 'एपीकल्चर' किससे सम्बन्धित है ?
 (A) केंचुआ पालन (B) मधुमक्खी पालन
 (C) अंगूर की कृषि (D) बागवानी
174. 'प्राकृतिक गैस' में मुख्यतः कौन सी गैस होती है ?
 (A) मेथेन (B) एथेन
 (C) प्रोपेन (D) कार्बन डाइऑक्साइड
175. 'नमक' का रासायनिक नाम क्या है ?
 (A) सोडियम क्लोराइड (B) सोडियम बाइकार्बोनेट
 (C) सोडियम हाइड्रॉक्साइड (D) सोडियम नाइट्रेट
176. कॉपर तथा टिन से कौन सी मिश्रधातु बनती है ?
 (A) सोल्डर (B) काँसा (C) पीतल (D) स्टेनलैस स्टील
177. मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रन्थि कौन सी है ?
 (A) यकृत (B) आमाशय (C) अग्न्याशय (D) लार
178. 'बुर्ज खलीफा' इमारत कहाँ है ?
 (A) शंघाई (B) मक्का (C) न्यूयॉर्क (D) दुबई
179. पाकिस्तान की मुद्रा क्या है ?
 (A) टका (B) क्यात (C) रियाल (D) रुपया
180. नेपाल के संसद का नाम क्या है ?
 (A) शोरा (B) पार्लियामेण्ट (C) राष्ट्रीय पंचायत (D) पीपुल्स असेम्बली
181. हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है ?
 (A) 55063 वर्ग किलोमीटर (B) 55363 वर्ग किलोमीटर
 (C) 55563 वर्ग किलोमीटर (D) 55673 वर्ग किलोमीटर
182. हिमाचल प्रदेश कब केन्द्र शासित प्रदेश बना था ?
 (A) 1 नवम्बर, 1956 (B) 1 जुलाई, 1954
 (C) 15 अप्रैल, 1948 (D) 25 जनवरी, 1971

183. हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मण्डल हैं ?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
184. हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है ?
(A) आम (B) सेब (C) देवदार (D) रोडोडेन्ड्रोन
185. 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ?
(A) 82.80% (B) 85.20% (C) 89.80% (D) 92.80%
186. हिमाचल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी ?
(A) लीला सेठ (B) शीला कौल
(C) विद्या स्टोक्स (D) राजकुमारी अमृत कौर
187. हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है ?
(A) शिमला (B) सुन्दरनगर (C) धर्मशाला (D) स्पिति
188. हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी किसे कहा जाता है ?
(A) भरमौर (B) मसरूर (C) मण्डी (D) मनाली
189. हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है ?
(A) रिवालसर (B) गोविन्दसागर
(C) महाराणा प्रताप सागर (D) रेणुका
190. बक्शी प्रतापसिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे ?
(A) काँगड़ा (B) कुल्लू (C) मण्डी (D) शिमला
191. रियो ओलम्पिक 2016 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते ?
(A) भारत (B) अमेरिका (C) चीन (D) जर्मनी
192. 62वें फिल्म फेयर अवार्ड्स समारोह 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता ?
(A) दंगल (B) सुल्तान
(C) पिकू (D) उपरोक्त कोई नहीं

193. It is _____ useful book.
(A) a (B) an
(C) the (D) None of these
194. It has been raining _____ morning.
(A) for (B) about (C) since (D) in
195. 'Sita is a very beautiful girl.' In this sentence the word 'beautiful' is a/an
(A) pronoun (B) noun
(C) adverb (D) adjective
196. Which one of the following sentence is correct ?
(A) Ram go to Shimla.
(B) Ram gone to Shimla.
(C) Ram goes to Shimla.
(D) None of these
197. शुद्ध शब्द कौन सा है ?
(A) पुज्य (B) पूज्य (C) पुजय (D) पूजय
198. 'निर्लज' में कौन सा समास है ?
(A) अव्ययीभाव (B) द्वन्द्व (C) बहुव्रीहि (D) तत्पुरुष
199. 'युवती' का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ?
(A) वारुणी (B) तरुणी (C) नूतना (D) कौमार्या
200. 'कैंची काटना' मुहावरे का क्या अर्थ है ?
(A) दृष्टि बचाकर चले जाना
(B) किसी को ज्ञात न होना
(C) कुछ उत्तर न देना
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Space For Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान